

हम कर सकते हैं

कक्षा - आठवीं

विषय – हिंदी

पाठ : १

पाठ का नाम : हम कर सकते हैं

PPT-4

CHANGING YOUR TOMORROW

3. सुबह - सवेरे बिस्तर छोड़ो ,
रात में जल्दी सो लो तुम ।
हम कर सकते , हम कर सकते ,
बार- बार ये बोलो तुम ।



अर्थबोध - कवयित्री कहती है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर जल्दी सोना बहुत जरूरी है। जल्दी सोकर उठना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि ये आदत इंसान को सेहतमंद और अकलमंद बनाती है। अतः कर सकते हैं, हम सभी को बार बार बोलना चाहिए।

संबंधित प्रश्न - (मौखिक सहित लिखित)

१. हमें सुबह कब उठना चाहिए ?
२. जल्दी सोकर उठने से क्या फायदा है?
३. हमें बार -बार क्या बोलना चाहिए ?

१. पाठ के प्रश्नोत्तर का मौखिक अभ्यास –

१. हमें बार-बार क्या बोलना चाहिए?
२. चींटी क्या करती है?
३. मछली दिन भर क्या करती है?
४. हिलमिल कर क्या करना चाहिए ?

THANKING YOU
ODM EDUCATIONAL GROUP